DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMITED

(Formerly known as D J Logistic Solutions Private Limited)



DJMLCS/BSE 116/2021-22

13th January, 2022

To.

The Department of Corporate Service, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Security Code -543193 & ISIN: INEOB1K01014

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of Pre-Issue Advertisement

Pursuant to Regulations 30, 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") please find the attached Pre Issue Advertisement made in accordance with Regulation 264 of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR") in following newspapers:

- a. Financial Express All India editions (English) dated January 13, 2021
- b. Jansatta All India editions (Hindi) dated January 13, 2021
- c. Mumbai Lakshadeep Mumbai edition (Marathi) dated January 13, 2021

The copy of the above newspaper publication is also enclosed herewith. The aforesaid documents are also made available on the website of the Company at www.djcorp.in.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For D. Mediaprint & Logistics Limited

Khushboo Mahesh Lalji

Company Secretary & Compliance Officer

M.No- A53405

Encl-a/a

Nine months

ended

31-Dec-21

(Unaudited)

(32.61)

(32.61)

(32.61)

(32.61)

1000.00

(1,588.32)

For the

quarter

ended

31-Dec-20

(Unaudited)

(3.22)

(3.22)

(3.22)

1000.00

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

Borrower(s) / Demand Notice Description of the Immovable Date of Symbolic Possession

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015. (Haryana) and Branch Office at - IIFL House, Sun Infotech Park Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act") Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos, with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

	The second secon		The state of the s		
Co-Borrower(s)	Date and Amount	property/ Secured Asset	22-Jul-2021	Rs.18,20,953/- (Rupees Eighteen Laki Twenty Thousand Nin- Hundred Fifty Three Only)	
1. Mr. Mohammed Fahim Rafiq Khan 2. Mrs. Roshan Fahim Khan	96-Apr-2021 Rs.19,95,185/- (Rupees		Total Outstanding As On Date 07-Jan-2022		
	Nineteen Lakh Ninety Five		Rs.20,44,724/-		
	Thousand One Hundred Eighty Five Only)	Dahivali Tarfe Var, Raigad, Maharashtra, 410201	(Rupees Twenty Lakh Forty Four Thousand Seven Hundred Twenty Four Only)	Earnest Money Deposit (EMD)	
Smart Pharma	Bid Increase Amount				
(Prospect No. IL10079887)	Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)		rising of really (see only)	Rs.1,82,095/- (Rupees On Lakh Eighty Two Thousan Ninety Five Only)	
Date of Inspect	on of property	EMD Last Date	Date/ Time	of E-Auction	
11-Feb-2022 1100 hrs -1400 hrs		14-Feb-2022 till 5 pm.	17-Feb-2022 1100 hrs-1300 hrs.		
Mode Of Payment :- A	il payment shall be made by den	nand draft in favour of "IIFL Home Fin	ance Limited" payable at Gurus	gram or through RTGS/NEF	

The accounts details are as follows: a) Name of the account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Charted Bank Ltd., c) Account No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://quickpay.iififinance.com,

Terms and Conditions:-

Email ID:-nitin.gosai1@iifl.com.

- For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.
- The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes
- The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the
- The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.liffl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed
- terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID: support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and any property related query Mr. Nitin Gosal @ 8898083083.
- Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower's, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
- In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in

tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final. STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, ailing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Description of the Immovable | Date of Physical Possession | Reserve Price

Sd/-Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited Place: Raigad Date: 13-Jan-2022

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix - IV A) (Rule 8(6))

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015. (Haryana) and Branch Office at:-IIFL House, Sun Infotech Park Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos, with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website www.bankeauctions.com.

man to the first	Patibilities 1464		peasibilett of the miniterence	water or i rigorous i ouocouron	1100011011100	
Co-Borrower(s)	Date and Amount		property/ Secured Asset	28-Dec-2021	Rs.40,00,000/-	
/Guarantor(s) 1. Ulhas Felix	15-Jan-2019 Rs.49,93,256/- (Rup		All that part and parcel of the property bearing: Unit/Flat	Total Outstanding As On Date 11-Jan-2022	(Rupees Forty Lakh Only)	
Fernandes 2. Lorina Rozaria Fernandes (Prospect No. 773108 & 772375)	Nine Lakh Nine Thousand Two Hundn Six Only)		No.403 admeasuring 610 Sq.Ft. Build up area, Fourth Floor, Wing - D, "Pooja Residential Complex",	Rs. 78,61,016/- (Rupees Seventy Eight Lakh	Earnest Money Deposit (EMD)	
	Bid Increase Ar	nount	G.B Road, Village Kavesar,	Sixty One Thousand Sixteen Only)	Rs.4,00,000/-	
	Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)		Waghbil, Thane, Maharashtra	Olly)	(Rupees Four Lakh Only)	
Date of Inspec	ction of property		EMD Last Date	Date/ Time of E-/	Auction	
28-Jan-2022 1100 hrs -1400 hrs		31-Jan-2022 till 5 pm.	02-Feb-2022 1100 hrs-1300 hrs.			
			draft in favour of "IIFL Home Finance int:- IIFL Home Finance Ltd., b) Nam			

No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://guickpay.iifffinance.com.

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in

- advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of
- the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the
- prescribed mode of payment. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.

balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the

- Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.
- For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID: support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.and any property related query Mr. Nitin Gosai@ 8898083083, Email ID:- nitin.gosai1@iifl.com.
- Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower's, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
- In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.
- AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.
- 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction

failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost Place: Thane Date: 13-Jan-2022 Sd/-Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited

Regd. Off: 10, Kumar Place, 2408, General Thimayya Road, Pune 411 001. • CIN No. L65493PN1990PLC058817 • Tel No. 91-22-4079 4700 • Fax No. 91-22-4079 4777, • Email ID: secretarial@deltin.com • Website: www.deltacorp.in

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

(Figures are ₹ in Crores unless specified)

Quarter Nine Months Quarter

Sr No.	Particulars	Ended 31/12/2021 Unaudited	Ended 31/12/2021 Unaudited	Ended 31/12/2020 Unaudited
1	Total Income from Operations	247.22	397.81	120.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	96.67	35.60	4.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	95.59	34.52	4.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	70.38	18.88	1.28
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	61.58	46.59	15.56
6	Equity Share Capital	26.70	26.70	26.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic:	2.64	0.71	0.05
	Diluted :	2.62	0.70	0.05
The F	inancial Results on standalone basis are as unde	er:		

ified)

	(Figures are ₹ in Crores unless specified)						
Sr No.	Particulars	Quarter Ended 31/12/2021 Unaudited	Nine Months Ended 31/12/2021 Unaudited	Quarter Ended 31/12/2020 Unaudited			
1	Income from Operations	165.20	227.81	67.98			
2	Profit Before Tax	88.90	66.53	20.66			
3	Profit After Tax	65.90	49.24	15.49			
Moto:	Notes						

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE AND NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website https://deltacorp.in/pdf/financial/2021-22/Quarter-December-2021-22.pdf.

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable For Delta Corp Limited

Place: Mumbai | Date: 11th January, 2022 (Jaydev Mody) Chairman DIN: 00234797

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI Central Advertising Agency, Mahim (W), Phone: 24468656 / 24465555 Premier Advertisers Mumbai Central Mobile: 9819891116 Opera House Phone : 23692926 / 56051035. Bandra (W), Mobile : 9664132358 Color Spot, Byculla (E), Phone : 23748048 / 23714748. Charudatta Advertising, Mahim (W), Phone : 24221461 Reckon Bandra (W.), Mobile : 9867445557 FCA Communications, Nariman Point, Phone: 40020550 / 51. Sanjeet Communication Fort. Phone: 40024682/40792205. Jay Publicity, Dadar (E), Phone : 24124640 Space Age Advertising, Bandra (E) Phone: 26552207 Mobile: 9869666222/ 9869998877 Fulrani Advtg. & Mktg. Antop Hill Phone: 24159061 Mobile: 9769238274/ 9969408835 S. Arts Advtg. Masjid Phone: 23415111 Pallavi Advtg. Dadar (W), Mobile: 9869109765 Kirti Agencies, Khar (W), Phone : 26047542. Taj Publicity Services, Byculla (W). Shree Swami Samarth Ganesh Advertising, Abdul Rehman Street, Phone : 2342 9163 / 2341 4596. Advertising, Dadar (W), Phone: 24440631 Mobile: 9869131962 Phone : 2305 4894. Mobile : 9892011371. Yugarambha Advertising, J.K. Advertisers, Hornimal Circle, Fort. Phone : 22663742. Promserve Vile Parle (W), Mobile: 9167778766 Girgaon, Phone: 2386 8065. Mobile: 9869074144. Aaryan Publicity Dadar (E), Phone: 022-65881876 Mobile: 9320111876 Time Advertising, *Venture Andheri (E) Phone : 61226000* Matunga (W), Phone : 2446 6191 Anuja Media Andheri (W), Mobile : 9152895703 Vijaya Agencies, Dadar (W), Phone : 2422 5672. Mobile : 9920640689 Manjyot Ads, Currey Road (E) Phone: 24700338. Mobile: 9820460262. B. Y. Padhye Publicity Services, Dadar (W), Phone: 2422 9241/ 2422 0445. Bombay Publicity Andheri (W) Mobile : 9870703542 OM Sai Ram Advtg., Currery Road Mobile: 9967375573 DATEY Advertising, Datey Bhavan, Dadar (W) Mobole : 8452846979/ 9930949817 Carl Advertising, Andheri (W), Phone: 6696 3441 / 42. Mobile: 9869040181. epapr Hook Advertainment Mobile: 9869040181. Gauri Press Communication, Andheri (E), Mobile: 9820069565/ 982006956 Achievers Media Bandra (W.), Phone: 22691584

S. E. RAILWAY TENDER TRANSMISSION CORPORATION OF TELANGANA LIMITED e-Tender Notice No. : CKP-SOUTH-21-22-14, Dated: 11.01.2022. Divisional Railway Manager (Engg.), South Eastern

Railway, Chakradharpur for and on behalf of the President of India invites E-tenders against open tender. Manual offers are not allowed against this tender and any such manual offer received shall be ignored. Name of work Execution of Track Maintenance work under SSE(P.Way)/BJMD for period ending upto 30.09.2023 (i.e. for two years) under the jurisdiction of DEN/South/CKP (2nd call). Tender Value 2.69,73,023.96. EMD : ₹ 2,84,900/-Cost of tender form: ₹ 0/-. Date of opening: 03.02.2022. The tender can be viewed at website http://www.ireps. gov.in. The tenderer/ bidders must have Class-III digital signature certificate & must be registered under IREPS Portal.

Only registered tenderer/bidder can

participate on e-tendering.

Name of the works: Spec.No.TST-CONST-e-17/2021-22-Supply, erection, testing and commissioning of i) 132/33 kV Sub-Station at Koutala in KomaramBheem Asifabad Dist with 2 X 10/16 MVA PTRs (Released) ii) 132kV DC/SC Line (43,4 km) from existing 132kV Sirpur Kagaznagar SS to the proposed 132/33kV Koutala and iii) 132 KV feeder bay at existing 132 KV SS Sirpur Kagaznagar to the proposed 132/33kV Koutala in KomaramBheen Asifabad District on turnkey basis.NOTE: - Further details can be seen @ http://www.eprocurement.telangana.gov.in. Phone No. 040-23396000, Extn: 3356, 3351 / FAX NO. 040-23336171.

For Advertising in TENDER PAGES Contact JITENDRA PATIL Mobile No.:

9029012015

Landline No.:

67440215

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE The Transmission Corporation of Telangana Limited invites sealed bids for the following works.

Ro No. 42/21 Sd/- Chief Engineer, Construction

Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) 3 Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after

tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]

Equity share capital (Face Value of Rs. 10 each)

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as

shown in the Audited Balance Sheet of the

No.

Particulars

previous year

8 | Earnings Per Share (Face Value of Rs.10 each) (not annualised) Basic and Diluted (0.07)(0.33)(0.03)NOTE The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The

www.bseindia.com and of the Company i.e. www.roselabsfinancelimited.in

full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e.

ROSELABS FINANCE LIMITED

CIN - L70100MH1995PLC318333

Regd. Office: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road,

Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001

Tel.: 91.22.61334400 | **Fax:** +91.22.23024420

Website: www.roselabsfinancelimited.in | E-mail: roselabsfinance@lodhagroup.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND NINE MONTHS ENDED 31-DECEMBER-2021

Quarter

ended

31-Dec-21

(Unaudited)

(7.31)

(7.31)

(7.31)

(7.31)

1000.00

For and on behalf of the Board of Directors of ROSELABS FINANCE LIMITED

Place: Mumbai Date: 12th January 2022

Raghava Reddy (Managing Director) DIN: 09185972

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

DJ Mediaprint & Logistics Limited Our Company was originally incorporated as "DJ Logistic Solutions Private Limited" on February 24, 2009 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number

U60232MH2009PTC190567 issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently name of the company has been changed to "DJ Mediaprint & Logistics Private Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation dated December 08, 2017. Subsequently our company was converted into Public Limited Company and the name of our Company was changed to "DJ Mediaprint & Logistics Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated December 19, 2017 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Our company got listed on the SME Platform of BSE limited on April 13, 2020. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 102 of the Prospectus. Registered office: 24, 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Mumbai – 400 002, Maharashtra, India, Corporate Office: UP Warehouse, Mafco Yard, Plot No. 4 to 9, 1st Floor, Sector-18, Vashi, Navi Mumbai – 400 703, Maharashtra, India. Contact Person: Ms. Khushboo Mahesh Lalji, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No.: 022 – 2788 9341 E-Mail ID: cs@djcorp.in; Website: www.djcorp.in; CIN: L60232MH2009PLC190567

OUR PROMOTERS: (I) MR. DINESH MUDDU KOTIAN AND (II) MR. SANTHOSH MUDDU KOTIAN FURTHER PUBLIC OFFER OF 12.00.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/F EACH ("EQUITY SHARES") OF DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PRÉMIUM OF ₹115/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE

PRICE"), AGGREGATING TO ₹1500.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/-

PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹75.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER" RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 11.40.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹1.425.00 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 22.17% AND 21.06% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate

payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page 184 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay. THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH THE FIXED PRICE PROCESS IN ACCORDANCE WITH REGULATION 281 READ WITH REGULATION 103(1) OF THE

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED. THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 27 of the Prospectus.) A copy will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 184 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT 125/- PER EQUITY SHARE

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER. FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO "SECTION XI - ISSUE INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 177 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME

FINSHORE

Place: Mumbai

ISSUE OPENS ON: JANUARY 18, 2022 **ISSUE CLOSES ON: JANUARY 20, 2022**

Simple, Safe, Smart way of Application!!! Mandatory in public issue. No cheque will be accepted

now available in ASBA for retail individual investors.

ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA below.'

"ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General

Information Documents and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 184 of the Prospectus.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, please see "Our History And Certain Other Corporate Matters" on page 102 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in

relation to the Offer. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 228 of the Prospectus. AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 1,000 lakhs divided into 1,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 421.39 lakhs divided into 42,13,920 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed Post issue capital : ₹ 541.39 Lakhs divided into 54,13,920 Equity Shares of ₹10 each. For

details of the Capital Structure, see the section "Capital Structure" on the page 38 of the Prospectus. NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹10/- each were allotted to Dinesh Muddu Kotian- 5000 equity shares and Santhosh Muddu Kotian- 5000 equity shares **LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE**

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and vestors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' beginning on page no.17 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "Basis for Issue Price" beginning on page 52 of the

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the issuer and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect.

LISTING: The Equity Shares of our company are already listed on the SME Platform of BSE Limited. The equity shares further offered through this Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our company has received "in-principal" approval letter dated January 06, 2022 from BSE for using its name in this Prospectus. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be BSE Limited ("BSE").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 168 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXHANGE (BSE LIMITED): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page no. 172 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE. **COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER**

Ms. Khushboo Mahesh Lalii

DJ Mediaprint & Logistics Limited

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Anandlok", Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal Telephone: 033 – 22895101 Email: ramakrishna@finshoregroup.com Website: www.finshoregroup.com Investor Grievance Email: info@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185 CIN No: U74900WB2011PLC169377	Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E) Mumbai – 400011, Maharashtra Tel: 022 2301 2518 / 8261, Email/ Investor Grievance E-mail support@purvashare.com Website: www.purvashare.com Contact Person: Ms. Deepali Dhuri - Compliance Officer SEBI Registration No: INR000001112 CIN No: U67120MH1993PTC074079	24, 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Marine Lines, Mumbai - 400 002. India Tel No.: 022 – 2788 9341 E-Mail ID: cs@djcorp.in Website: www.djcorp.in Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.			
Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk					

Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in.

Availability of Application form: Application forms can be obtained from the Registered Office of DJ Mediaprint & Logistics Limited and the Lead Manager to the Issue Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of BSE & SEBI.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of BSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia. com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" beginning on page 184 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors.

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 17 of the Prospectus before making any investment decision.

For DJ Mediaprint & Logistics Limited On behalf of the Board of Directors

Date: 13/01/2022 DJ Mediaprint & Logistics Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a further public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www. finshoregroup.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933.

पूर्वोत्तर रेलवे शुद्धिपत्र

राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर / रिपेयर, वास्ते मुख्य कारखाना प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिये कस्टम के सचना सं0 एवं निविदा कार्य का विवरण: आई. / रिपेयर / रिकंडीशनिंग / ए एम सी / पी ओ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, कांट्रेक्टर मस्ट सबिमट वैलिंड क्लास 'ए' इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स लाइसेंस इशुड बाई इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट आर्गेनाईजेशन। इफ टेंडरर हैव नॉट सबिमटेड द बैलिंड क्लास 'ए' इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स लाइसेंस, द ऑफर विल बी सम्मरिली रिजेक्टेड। इस ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेत् भारतीय रेल की वेबसाइट संख्या

www.ireps.gov.in पर देखे। मुख्य कारखाना प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना मुजाघि / यांत्रिक-66

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वितीय तल, पारस टॉवर, मांजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171 वसूली अधिकारी-2, डीआरटी, देहरादून के समक्ष

बिक्री घोषणा के निपटारे के लिए सूचना (ऋण की वसूली और दिवालियापन अधिनियम की घारा 25 से 29 के साथ आयकर अधिनियम 1961 की अनुसूची-॥ के नियम 53 के तहत एक बिक्री घोषणा

टी.आर.सी. 626/2028 (ओल्ड डीआरसी नं0 56/2018 डीआरटी लखनऊ) पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स राना एलॉयस एवं अन्य

सीडी.6: श्रीमती शाइरता बदर पत्नी श्री मो. शाहिद, निवासी फ्लैट नंबर 53, क्यू-ब्लॉक, सेक्टर-13, आर.के., परम, नई दिल्ली।

सोसाइटी, कर्जन रोंड, देहरादून, उत्तराखंड। सीडी.8: अतिअ उर्फ शबीना बदर पत्नी फैसल खंड, निवासी नया राणा हाउस, मेरठ रोड,

वसूली प्रमाण पत्र संख्या टीआरसी / 626 / 2018 (ओ.ए. संख्या 74 / 2014 में) दिनांक 08.06. 2015 के निष्पादन में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

उसकी शतों को निपटाने के लिए दिनांक 14.02.2022 निर्धारित की गई है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्तियों या उसके किसी हिस्से से जुड़े किसी भी भार, शुल्क, दावों या देनदारियों को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाने के लिए, यदि आप उत्तर देने में विफल रहते हैं, तो आपकी जानकारी को शुन्य माना जाएगा।

संपत्ति की विशिष्टता

संपत्ति—1. खसरा संख्या 2088 वाले औद्योगिक भूखंड 626 वर्ग गज या 523.33 वर्ग मीटर गांव सुजरू, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है। सीमाएं: पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- जी.टी. रोड, उत्तर- विक्रेता की भृमि, दक्षिण- 15 फीट चौडी सडक।

तहसील और जिला मजफ्फरनगर में स्थित है। सीमाएं: उत्तर- इकबाल अहमद आदि की संपत्ति, दक्षिण- सडक 25 फीट चौडी, पूर्व- श्री

संपत्ति-3. खसरा संख्या 1625 / 0.709 वाले कृषि भूखंड, माप क्षेत्र 0.170 हेक्टेयर,

गांव सुजरू, तहसील और जिला मुजपफरनगर में स्थित है। मीटर, मोहल्ला क्ंगड पट्टी, ग्राम सजरू तहसील और जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है।



punjab national bank ...the name you can BANK upon.

सस्त्र सन्दर, दक्षिण दिल्ली, भोकाजी कामा प्लंस, नई दिल्ली-110066, फोन: 011-47519273, ई-मल: cs8320@pnb.co.in

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सर्किल सस्त्र सेन्टर, दक्षिण दिल्ली, भीकाजी कामा प्लेस के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002(यहाँ के बाद 'नियमावली' वर्णित) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.10.2021 जारी कर ऋणधारक/गारंटर्स/मार्टगैजर्स श्रीमती सोनिया शर्मा, पत्नी श्री रमेश शर्मा, डब्ल्युजेड-508/6 ई ख.नं. 1529 (जीएफ एवं एफएफ), बसई दारापुर, दिल्ली-110015, तथा साथ हीः मकान सं. 11/9, 2रा तल, डबल स्टोरी, मोती नगर, दिल्ली-110015 को ऋणखाता सं. 014700NC00000391, के अंतर्गत उक्त सूचना की तिथि/सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर वर्णित राशि 30.6.2019 को बकाया एवं देय रु. 28,69,380.30(रु. अट्टाईस लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ अस्सी एवं पैसे तीस मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे के ब्याज, लागत तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

जाता है कि आज. 11 जन.. 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

के प्रति आकष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों क किसी भी तरह का व्यवसाय 30.6.2019 को बकाया एवं देय रु. 28.69.380.30(रु. अट्टाईस लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ अस्सी एवं पैसे तीस मात्र के साथ सम्पूर्ण भूगतान तक उस पर आगे के ब्याज, लागत तथा खर्चे के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती सोनिया शर्मा. पत्नी श्री रमेश शर्मा के नाम में उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि के आनुपातिक अधिकार के साथ उक्त भवन की कॉमन सीढ़ियों, पैसेज, मैन गेट तथा सभी सामान्य सुविधाओं के साथ ग्राम बसई दारापुर, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. डब्ल्युजेड-508/6-ई, भूमि माप 90 वर्ग यार्ड्स लगभग, खसरा नं. 1529 में छत/टैरेस के अधिकार के बिना सम्पूर्ण भूतल एवं प्रथम तल का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 11.01.2022. स्थान: नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजीकृत कार्यालय : अडानी हाउस, 56, श्रीमती सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009, गुजरात, भारत कॉर्पोरेट कार्यालय : 1004/5, 10वीं मंजिल, सी-विंग, वन बीकेसी, सी-66, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई 400 051, महाराष्ट्र, भारत

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

(''ईसेल'') से ऋण सविधाएँ ग्रहण की हैं। ईसेल तथा आप के बीच कथित अनुबन्ध के तहत, इसेल ने 30.12.2019 के पंजीकृत एसाइनमेंट विलेख के माध्यम से ऋण को अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (''एसीपीएल'') को असाइन कर दिया था। तदनुसार कथित ऋण के सम्बन्ध में समस्त अधिकार तथा दायित्व एसाइन की तिथिसे एसीपीएल को एसाइन कर दिये गये हैं। आपकी चुकों के कारण आपके ऋणों को नॉन-पफार्मिंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने बकाया देयताओं की वसली के लिए, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत माँग सुचना जारी की, जिसकी विषय-सामग्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत तथा आपको सर्विस के रूप में इसके साथ प्रकाशित की जा रही है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, बंधक

जनानता का नान∕ ऋण खाता सं.∕ईसेल ऋण खाता सं.		बकाया तिथि
अनौकी एंटरटेनमेंट्स मोनिका बख्शी / यशवंत कुमार बख्शी 106MSM001021075 और 106MSM001030049 (एसेल खाता सं.: LNDEL07516-170000836	अचल संपत्ति का समस्त भाग, प्रथम तल परिसर बिल्ट-अप निजी नंबर 6, छत के अधिकार रहित, पूर्वी भाग, माप 66.67 वर्ग गज (कथित भाग) संपत्ति संख्या 189-ए/आई, प्लॉट नंबर 31 पर निर्मित, कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, गांव शेख सराय के राजस्व एस्टेट में स्थित, सावित्री नगर आबादी, पो.ऑ. मालवीय नगर, नई दिल्ली और सीमाएं : पूर्व - अन्य संपत्ति, पश्चिम-गली 61 चौड़ी, उत्तर - सड़क, दक्षिण - प्रवेश द्वार	₹. 2683197.6 (2290576.6 + 392621)
गुप्ता सन्स मेटल / संजय गुप्ता / हिमांशु गुप्ता / शालू गुप्ता 106MSM001021775 (एसेल खाता नंबर: LNDEL06718-190002163	अचल संपत्ति का समस्त भाग, मकान ४६१, भूतल, खसरा नं. 137/6 विस्तारित लाल डोरा गांव बुराड़ी अब आबादी संत नगर दिल्ली-110084 और सीमाएं : पूर्व - गली, पश्चिम - अन्य संपत्ति, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - अन्य संपत्ति	21-दिस21 रु. 2958306.1 21-दिस21 तक
केल्विन इंस्टीट्यूट / जीतू कुमार / सौरभ सिंह / भारत भूषण / सोनिया संजय गुजर / जयंत चौधरी / संजय कुमार 100MSM001021541 और 100MSM001032232 (एसेल खाता नंबर : LNDEL00418-190002286	अचल सम्पत्ति का समस्त भाग, सम्पत्ति खसरा नंबर 165/1 और 166/1 खाता नंबर 429, वाटिका मैरिज होम, माप 0.1376 हेक्टेयर (भूमि निर्माण सहित) रामेश्वर पार्क ग्राम लोनी परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद उ0प्र0-201102 सीमाएं : पूर्व - दीगर मालिक की भूमि, पश्चिम - रिवेंटमेंट वाल, उत्तर - दीगर मालिक की भूमि, दक्षिण - दीगर मालिक का खुला प्लॉट	21-दिस21 रु. 13646491.51 (11594137.51 +2052354) 21-दिस21 तक

कृते अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी

माँग सूचना की तिथि/

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

DJ Mediaprint & Logistics Limited

Our Company was originally incorporated as "DJ Logistic Solutions Private Limited" on February 24, 2009 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U60232MH2009PTC190567 issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently name of the company has been changed to "DJ Mediaprint & Logistics Private Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation dated December 08, 2017. Subsequently our company was converted into Public Limited Company and the name of our Company was changed to "DJ Mediaprint & Logistics Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated December 19, 2017 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Our company got listed on the SME Platform of BSE limited on April 13, 2020. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 102 of the Prospectus.

Registered office: 24, 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Mumbai – 400 002, Maharashtra, India. Corporate Office: UP Warehouse, Mafco Yard, Plot No. 4 to 9, 1st Floor, Sector-18, Vashi, Navi Mumbai – 400 703, Maharashtra, India, Contact Person: Ms, Khushboo Mahesh Lalii, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No.: 022 – 2788 9341 E-Mail ID: cs@dicorp.in; Website; www.dicorp.in; CIN: L60232MH2009PLC190567

OUR PROMOTERS: (I) MR. DINESH MUDDU KOTIAN AND (II) MR. SANTHOSH MUDDU KOTIAN

FURTHER PUBLIC OFFER OF 12,00,000 EQUITY SHAKES OF FACE VALUE OF \$10/- EACH ("EQUITY SHAKES") OF DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMITED (TH "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/- PER EQUITY SHARE. INCLUDING A SHARE PRÉMIUM OF ₹115/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹1500.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/-PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹75.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 11,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹1,425.00 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 22.17% AND 21.06% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page 184 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay.

THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH THE FIXED PRICE PROCESS IN ACCORDANCE WITH REGULATION 281 READ WITH REGULATION 103(1) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED. THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIRMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 27 of the Prospectus.) A copy will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 184 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT 125/- PER EQUITY SHARE

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER. FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO "SECTION XI - ISSUE INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 177 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME **ISSUE OPENS ON: JANUARY 18, 2022 ISSUE CLOSES ON: JANUARY 20, 2022**

Mandatory in public issue. No cheque will be accepted

now available in ASBA for retail individual investors. *ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account.

For further details check section on ASBA below." "ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General Information Documents and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 184

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For

information on the main objects of the Company, please see "Our History And Certain Other Corporate Matters" on page 102 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 228 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 1,000 lakhs divided into 1,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 421.39 lakhs divided into 42,13,920 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed Post issue capital : ₹ 541.39 Lakhs divided into 54,13,920 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see the section "Capital Structure" on the page 38 of the Prospectus. NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹10/- each were allotted to Dinesh Muddu Kotian- 5000 equity shares and Santhosh Muddu Kotian- 5000 equity shares

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and vestors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' beginning on page no.17 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "Basis for Issue Price" beginning on page 52 of the Prospectus.

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the issuer and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect. **LISTING:** The Equity Shares of our company are already listed on the SME Platform of BSE Limited

The equity shares further offered through this Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our company has received "in-principal" approval letter dated January 06, 2022 from BSE for using its name in this Prospectus. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be BSE Limited ("BSE").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 168 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXHANGE (BSE LIMITED): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page no. 172 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

FINSHORE

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Anandlok", Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal

Telephone: 033 – 22895101 Email: ramakrishna@finshoregroup.com **Website:** www.finshoregroup.com

Investor Grievance Email: info@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185 CIN No: U74900WB2011PLC169377

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED

9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E) Mumbai – 400011, Maharashtra Tel: 022 2301 2518 / 8261, Email/ Investor Grievance E-mail support@purvashare.com

REGISTRAR TO THE ISSUE

Website: www.purvashare.com Contact Person: Ms. Deepali Dhuri - Compliance Officer SEBI Registration No: INR000001112 **CIN No:** U67120MH1993PTC074079

Ms. Khushboo Mahesh Lalji **DJ Mediaprint & Logistics Limited** 24. 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Marine Lines,

Tel No.: 022 - 2788 9341 E-Mail ID: cs@djcorp.in Website: www.djcorp.in Investors may contact our Company Secretary and Compliance

Mumbai - 400 002. India

Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in. Availability of Application form: Application forms can be obtained from the Registered Office of DJ Mediaprint & Logistics Limited and the Lead Manager to the Issue

Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of BSE & SEBI. Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors

are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of BSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia. com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" beginning on page 184 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors.

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 17 of the Prospectus before making any investment decision.

For **DJ Mediaprint & Logistics Limited** On behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Date: 13/01/2022

Managing Director DJ Mediaprint & Logistics Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a further public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus

with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www. finshoregroup.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933.



ई-नीलामी सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, ई—1, प्रथम तल, झंडेवालान एक्सटेंशन, वीडियोकॉन टॉवर, नई दिल्ली —110055,

फोनः 011-66083064, 011-45720667

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री दिनांक 23.02.2022 (कमांक संख्या 1 के लिए संपत्ति) को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होनी है, के लिए ई-नीलामी बिकी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण व विशेषः ऋणी (यों) व गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता हे कि नीचे वर्णित अचल संपित्तियों / प्रतिभूतित परिसंपिततयां प्रतिभूतित ऋणदाता (आईडीबीआई बैंक लि.) को गिरवी प्रभारित हैं। चूंकि वित्तीय परिसंपित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) अंतर्गत प्रत्येक ऋणी के लिए नीचे दिए गए विवरण अनुसार ऋणियों, गारंटरों / गिरवीकर्ताओं (यहां के बाद ऋणियों के रूप में संदिभत) से राशि की वसूली के लिए मांग सूचना जारी की थी। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसंपित्तियों के प्रतिभेतकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में वर्णित शक्तियों के अनुपालन में, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित प्रतिभूतित संपितियों का भौतिक / सांकेतिक कब्जा ले लिया है। चूंकि प्रतिभूतित संपित्तियों की बिकी उस पर बैंक द्वारा व्यय लागतों व शुल्कों, भावी ब्याज सहित वसूली, यदि कोई है को छोड़कर मांग सचना अनुसार ऋणियों से आईडीबीआई बैंक लि. को देय प्रतिभतित ऋणों की वसली सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा की जाएगी। आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकत एजेंट के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

प्रतिभूति संपत्तियों की बिकी की अनुसूची

क्र सं	- ऋणी का नाम /(सह—उधारकर्ता) / गारंटर	मांग सूचना की तिथि और उसमें वर्णित बकाया देय राशि	प्रतिभूति संपित्तियों का विवरण	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	ईएमडी और बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय	को आरटीजीएस / एनईएफटी	संपितत के निरीक्षण की तिथि और समय	वृद्धिशील बोली	प्राधिकृत अधिकारी / नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर
1.	मैसर्स कैल्ज़िनी फ़ैशन लिमिटेड (उधारकर्ता) और मैसर्स यश ग्लोबल लिमिटेड (गारंटर)		संपत्ति संख्या 66, ब्लॉक एस, निचला मैदान, ग्रेटर कैलाश—द्वितीय, नई दिल्ली—110048 क्षेत्रफल 300 वर्गगज		24.05.2021	स्न . 1,18,00,000/-	ক্. 12,00,000/-	22.02.2022 शाम 5:00 बजे तक	खाता संख्या- 01037000010793 नामः आईडीबीआई बैंक लि. आईएफएससी कोडः- IBKL0000010	दिनांक 10.02.2022 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक	स्न. 50,000/-	श्री राकेश ढल्लाः ०११—४५७२०६६७ अचल सिंहः ९७११७१०८८५८ श्री पंकज गुप्ताः ०११—६६०८८४०८४ / ९८७८८८४६०

बोली दस्तावेज में वर्णित नियमों और शर्तों की सूची: बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। 1- प्रतिभूति ऋणदाता अर्थात आईडीबीआई बेंक लिमिटिड द्वारा ''जैसी है जहाँ है'', ''जैसी है जो कुछ है'' के आधार पर ''वहाँ जो कुछ है'' और ''बिना रिसोर्स के'' आधार पर की जानी है। 🛂 बिक्री इस विज्ञापन में और ''बोली दस्तावेज'' में दिए गए नियमों एवं शर्तों के पूर्णतया अधीन होगी। बोली दस्तावेज कार्यदिवस को प्राप्त किए जा सकेगें अथवा आईडीबीआई की वेबसाईट नामतः www.idbibank.in तथा https://www.bankeauctions.com पर से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। 3.यह बिक्री ई-नीलामी सेवा प्रदाता सी 1 इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से वेबसाईटः https://www.bankeauctions.com पर ई नीलामी प्लेटफार्म पर आयोजित की जाएगी तथा श्री विनोद चौहान से (मो.) +91-9813887931 (फोन) +91-124-4302020 (ई-मेल) Delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com पर सम्पर्क करें। 4- प्राधिकृत अधिकारी को सभी या किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताये चाहे कुछ भी हो नीलामी को किसी भी समय आगे बढाने या रदद करने का पूर्ण अधिकार है, इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा 5- सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि (जमा की गई ईएमडी राशि घटाकर) बिक्री की पुष्टि के समय जमा करनी होगी। बिक्री मूल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि के अवधि के भीतर जमा करनी होगी। शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहने पर, धरोहर राशि सहित पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी। 6-25% बोली राशि तुरंत जमा करने में या निर्धारित अवधि में बोली का 75% जमा कराने में असफल होने पर पहले से जमा राशि जब्त कर ली जायेगी और प्रतिभृतित संपत्तियों को दुबारा बेचा जाएगा। 7.सभी वैधानिक देय / ऋण / पंजीकरण शुल्क, स्टांप डयूटी, कर आदि सहित अन्य देय खरीद्दार द्वारा वहन कियें जाएगें। अधिक जानकारी और पूर्ण नियम और शर्तों के लिए, कृपया www.idbibank.in पर जाएं और / या प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लिखित नोडल अधिकारियों / प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अन्तर्गत 15/30 दिनों की वैधानिक सूचना उधारकर्ता / गारंटरों को एतदुद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि अद्यतन ब्याज एवं सहायक खर्ची सिहत, का भूगतान ई—नीलामी / बिकी से पूर्व करें, असफल रहने पर उक्त उक्त संपत्ति को नीलामी द्वारा बेच दिया जाएगा और शेष देय राशि, यदि कोई है तो, ब्याज और

लागत सहित वसूल किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

www.readwhere.com

डायरी संख्या 247

डिस्क्रिप्शन के संबंध में। म.सं० 1:-- ई--निविदा आर.पी.एस. टेण्डर नं0-30-जीकेपी-एमडब्लुएस-2021-22 ओवरहालिंग आफ ट्रांसफार्मर आफ मेमू मोटर कोच पीओएच एण्ड डी. सी. मोटर्स आफ मेमू मेन कम्प्रेशर एण्ड आक्जलरी कम्प्रेशर फार 36 मेमू मोटर कोचेज एज पर स्कोप आफ वर्क। पूर्व में निर्धारितः निल, संशोधितः फर्म शुड हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टालेशन एंड कमीशनिंग एच ऑफ डी सी /ए सी मोटर्स (अप ट्र 15 के डब्ल् ऑर मोर) एंड ट्रांसफार्मर (1000 के वी ए / 25 के बी ऑर मोर) इन रेलवे / पी एस य / गवर्नमेंट सेक्टर। नोट :-सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड़ बी सबमिटेड वाई टेंडरर विध टेंडर डॉक्यूमेंट, पूर्व में निर्धारितः निल, इलेक्टिकल लाइसेंस :- द टेंडरर्स मस्ट सबमिट वैलिंड क्लास 'ए' इलेक्टिकल कॉन्ट्रैक्टर्स लाइसेंस इशुड बाई गवर्नमेंट आर्गेनाईजेशन अलोंग विथ हिज ऑफर। इफ क्लास 'ए' इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स लाइसेंस हैज बिन एक्सपायर्ड, टेंडरर शुड सबिमेट रिसीप्ट ऑफ रिन्युअल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस इश्रुड बाई इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट आर्गेनाईजेशन विथ दिस ऑफर। एट द


















दिनांकः 12.01.2022



की स्थापना के लिए सूचना)

सीडी.5: श्रीमती रजिया टाक पत्नी श्री अमजद टाक, निवासी नया राणा हाउस, मेरठ

सीडी.7: श्री शाहीन चौघरी पुत्र श्री मो. इजराइल, निवासी जी-304, विंडलास हाउसिंग

मुजफ्फरनगर (युपी)। जैसे कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वस्तुली न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा तैयार किये गये

आपको एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि बिक्री की उदघोषणा तैयार करने और

संपत्ति-2. औद्योगिक भूखंड खसरा संख्या 1355, क्षेत्रफल 620.60 वर्ग मीटर, गांव, वहलना,

सहजाद आदि का भखंड. पश्चिम- मेरठ रोड।

संपत्ति-4. खसरा संख्या 1547 एवं 1548 का निर्मित औद्योगिक भूखंड, क्षेत्रफल 1170 वर्ग सीमाएं: उत्तर- सडक 35 फीट चीडी, दक्षिण- कमरुजामा राणा का घर आदि, पूर्व-कमरुजामा राणा की संपत्ति आदि, पश्चिम-चक रोड 11 फीट चौड़ी। वसूली अधिकारी-।।

नियम 8(1) के साथ पठित, के अंतर्गत) (अचल सम्पत्ति के लिये)

ऋणधारक/गारंटर्स/मार्टगैजर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर्स/मार्टगैजर्स तथा आम जनता को सूचित किया ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानी

अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन : U65990GJ2016PTC093692, वेबसाइट : www.adanicapital.in

आप निम्नलिखित कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर ईसेल फाइनेंस बिजिनेस लोन्स लिमिटेड सम्पत्तियों, बकाया देयताओं, धारा 13(2) के तहत भेजी गयी माँग सूचना तथा उसके तहत दावाकृत राशि नीचे दी जा रही है :

बंधक सम्पत्ति का पता

सं.∕ईसेल ऋण खाता सं.		बकाया तिथि
अनौकी एंटरटेनमेंट्स मोनिका बख्शी / यशवंत कुमार बख्शी 106MSM001021075 और 106MSM001030049 (एसेल खाता सं.: LNDEL07516-170000836	अचल संपत्ति का समस्त भाग, प्रथम तल परिसर बिल्ट-अप निजी नंबर 6, छत के अधिकार रहित, पूर्वी भाग, माप 66.67 वर्ग गज (कथित भाग) संपत्ति संख्या 189-ए/आई, प्लॉट नंबर 31 पर निर्मित, कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, गांव शेख सराय के राजस्व एस्टेट में स्थित, सावित्री नगर आबादी, पो.ऑ. मालवीय नगर, नई दिल्ली और सीमाएं : पूर्व - अन्य संपत्ति, पश्चिम-गली 61 चौड़ी, उत्तर - सड़क, दक्षिण - प्रवेश द्वार	रु. 2683197.6 (2290576.6 + 392621) 21-दिस21 तक
गुप्ता सन्स मेटल / संजय गुप्ता / हिमांशु गुप्ता / शालू गुप्ता 106MSM001021775 (एसेल खाता नंबरः LNDEL06718-190002163	अचल संपत्ति का समस्त भाग, मकान 461, भूतल, खसरा नं. 137/6 विस्तारित लाल डोरा गांव बुराड़ी अब आबादी संत नगर दिल्ली-110084 और सीमाएं : पूर्व - गली, पश्चिम - अन्य संपत्ति, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - अन्य संपत्ति	21-दिस21 रु. 2958306.1 21-दिस21 तक
केल्विन इंस्टीट्यूट / जीतू कुमार / सौरभ सिंह / भारत भूषण / सोनिया संजय गुजर / जयंत चौधरी / संजय कुमार 100MSM001021541	अचल सम्पत्ति का समस्त भाग, सम्पत्ति खसरा नंबर 165/1 और 166/1 खाता नंबर 429, वाटिका मैरिज होम, माप 0.1376 हेक्टेयर (भूमि निर्माण सहित) रामेश्वर पार्क ग्राम लोनी परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद उ०प्र0-201102 सीमाएं : पूर्व - दीगर मालिक की भूमि, पश्चिम - रिवेंटमेंट वाल, उत्तर - दीगर मालिक की भूमि,	21-दिस21 रु. 13646491.51 (11594137.51 +2052354) 21-दिस21 तक

अतः आप कर्जदार/रों तथा सह-कर्जदार/रों को इस सुचना से 60 दिनों के भीतर यहाँ ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित राशि का पुर्ण भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभृतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकुष्ट किया जाता है जिसके कारण आप उपर्यक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिभत आस्ति विमोचित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से उपर्युक्त सन्दर्भित प्रतिभतियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

स्थान : दिल्ली *अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

जाहीर सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की<mark>, श्री. समीर महेंद्र खारा</mark> हे

म्लॅट क्र.११, २रा मजला, स्वस्तीक अपार्टमेंट म्हणून

ज्ञात इमारत, तोरलकुंज को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायर्ट

लेमिटेड, दादाभाई क्रॉस रोड क्र.३, विलेपार्ले (प.)

मुंबई-४०००५६ या जागेचे विद्यमान मालक आहेत आणि भागप्रमाणपत्र क्र.१९ अंतर्गत अनुक्रमांक ५१ ते ५५

नागत्रनाजयत्र क्र.१९ जागात जनुक्रमाक २९ त ५५ (दोन्ही समाविष्ट) धारक रु.५०/– प्रत्येकीचे ५ (पाच) पुर्णपणे भरणा केलेले शेअर्सचे धारक आहेत.

त्री. सतिश सी. देसाई (सदर फ्लॅटचे मुळ मालक) द्वारे मुंबई

येथील लघवाद न्यायालयात दाखल दावा क्र.३३७/१९७९

मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर, १९८९ रोजीचे मुळ अनुमत

करारनामा अर्थात मालिका दस्तावेज श्री. नविनचंद्र बाबुलाव

गांधी यांच्याकडून हरवले आहेत आणि शोध घेऊनह

जर कोणा व्यक्तीस, संस्थेस, कंपनीस उपरोक्त मालमत्तेब

अधिकार, हक्क, हित, ताबा किंवा दावा असल्यास त्यांन

कागदोपत्री पुराव्यासंह लेखी स्वरुपात खालील स्वाक्षरीकत यांना त्यांचे कार्यालय छबीनाथ पांडे कंपाऊंड, न्यु एअरपोत

रोड, मरोळ नाका, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००५९ येथे सद्र

सूचना प्रकाशन तारखेपासून १५ दिवसांत कळवावे

ॲड. नागेंद्र कुमार तिवारी

जाहीर नोटीस

सर्व लोकांस कळविण्यात येत की, गांव मौजे

रवानिवडे, ता. पालघर जि. पालघर येथील

सर्वे क्र. १२३, हिस्सा नं. २/१, क्षेत्र

हे.आर. ०.१५.५०, पो.ख. ०.०२.८०

आकारणी रू. पै. १.५८, सर्वे क्र. ११९

हिस्सा नं. १, क्षेत्र.हे.आर. ०.१५.७०

आकारणी रू. पै. ०.८२, सर्वे क्र. १२६

हिस्सा नं. ३/ब/२, क्षेत्र. हे.आर ..०३.०, आकारणी रू. पै. ०.३०

सर्वे क्र. १२६, हिस्सा नं. १/४, क्षेत्र

हे.आर. ०.००.५०, आकारणी रू. पै

o.o५, अशी मिळकत जिमन मालक श्री

धिरज मोहन घरत व इतर यांच्या मालकीची

आहे व त्यांनी त्याचआधारे सदर मिळकत माडे

अशिल **श्री. संतोष मोरेश्वर पाटील** यांन

वरील संपर्ण मिळकत मोकळी जागा देत आहे

तरी सदर मिळकतीमध्ये किंवा त्यातील कोणत्याई

गगात कोणी इसम किंवा व्यक्तींच्या गहाण

दान, बक्षीस, दावा, वारस, कब्जापावर, वहिवाट

विश्वस्थ, कुळारग, भाडेपट्टा, अदलाबदल

पोटगी व अन्य हक्क हितसंबंध असेल तर तं

त्यांनी ही नोटीस प्रसिध्द होताच १४ दिवसांच्य

आत निम्न स्वाक्षीकारांनी त्यांच्या **गाॅप नं**

२१, साई बाजार, तुळींज पोलीस तुळींज रोड, नालासोपारा - पुर्व, ता

वसई, जि. पालघर ४०१ २०९, हय

त्यावर योग्य त्या कागदोपत्री पुराव्यासः

कळवावा. अन्यथा तसा हक्क, हितसंबंध नार्ह

असे समजुन भाडेपट्टा/विक्रीचा व्यवहार व

विकसित करण्याची सर्व प्रकारची प्रक्रिया पुण

प्रापडलेले नाही.

असे समजले जाईल.

भाज दिनांकीत १३ जानेवारी, २०२२

पुणे, दि.१२ (प्रतिनिधी) जिल्ह्यात १० जानेवारीपासून आरोग्य कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि ६० वर्षे वयावरील सहव्याधी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना तिसरा डोस देण्यास सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी जिल्ह्यात २५०० ज्येष्ठ नागरिकांनी लसीची दक्षता मात्रा (प्रिक्रॉशन डोस) घेतला. पहिल्या दिवशी ३३६६ आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी तिसरा डोस घेतला. कोरोनाची तिसरी लाट आणि ओमायक्रॉनचे संकट यामुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. त्यामुळे ३

जानेवारीपासून १५

ते १८ वर्षे वयोगटाचे लसीकरण सुरू करण्यात आले. तसेच, १० जानेवारीपासून तिसऱ्या डोसला सुरुवात करण्यात आली. दूसरा डोस घेऊन ९ महिने किंवा ३९ आठवडे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी कोविन अँपवरून नोंदणी करून किंवा थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन लसीचा तिसरा डोस घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले पूणे शहरात पहिल्या दिवशी दुसरा डोस घेऊन ९ महिने पूर्ण झालेले ३८७ आरोग्य कर्मचारी, १९० अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी १९० आणि ८०० ज्येष्ठ नागरिकांनी तिसरा डोस घेतला. पुणे महापालिकेने १७९ केंद्रांवर या विशेष गटासाठी लसीकरणाचे नियोजन केले आहे. सुमारे पाच ते सहा हजारांपेक्षा जास्त

लसींचा कोटाही तयार

ठेवण्यात आलेला आहे.

६५१ ज्येष्ठ नागरिकांनी

जिल्ह्यात आतापर्यंत

११ लाख ५६ हजार

पहिला डोस, तर ९

लाख ३६ हजार ८४९

जणांनी लसीचा दुसरा

डोस घेतला आहे. ३ ते

१५ ते १८ वयोगटातील

१ लाख ९८ हजार ८५९

लाभार्थ्यांचे लसीकरण

झाले आहे. ''

१० जानेवारीदरम्यान

APPENDIX - 16 [Under the Bye-law No. 34] The Form of Notice, inviting claims or objections to the transfer of the shares and the interest of the Deceased Member in the

ठेकाण: मुंबई

दिनांक: १२ जानेवारी, २०२२

Capital/ Property of the society (To be published in two local newspapers having large publication) NOTICE

Shri Pravinchandra Haridas Kabani, a Member of the Paresh Co-operative Housing Society Ltd. having, address at B/304, Paresh Co-Op. Hsg. Soc. Ltd., S.V.P. Road, Borivali (West), MUMBAI 400 092 and holding flat/ tenement No B/304 in the building of the society, died on 22/06/2021 making nomination. The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other

claimants/ objector or objectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society within a period of 07 Seven) days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their and interest of the deceased member in the capital/ property of the society. If no claims/ objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society in such manner as is provided under the bye-laws of the society The claims/ objections, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the society. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/ objectors, in the office of the society/ with the secretary of the society between 6.00 P. M. to 7.00 P.M. from the date of expiry of its period.

The PARESH Co-op. Housing Society Ltd. Date : 12.01.2022 Hon. Secretary

जाहीर सूचना

ॲड. बी. आर. शर्मा, (वकील)

सही/

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, माझे अशील श्री. प्रकाश सुरता वाल्मीकी हे फ्लॅट क्र.४५, ४था मजला, मारत क्र.डी२, अस्मिता ज्योती कोहौसोलि., मार्वे रोड, मालाड (प.), मुंबई-४०००९५ या जागेचे मालक असून त्यांच्याकडून श्री. <mark>ब्रायन कॅजेतन फर्नांडिस आणि</mark> **थ्री. प्रकाश एस. वाल्मीकी** यांच्या दरम्यान झालेल तावेज क्र.०२१०७/२००६ धारक दिनांक ४.३.२००१ ोजीचा मूळ नोंदणीकृत करारनामा, **श्री. ब्रायन कॅजेत**न **क्रनांडिस** यांच्या नावे असलेले दिनांक २९.५.१९९४ रोजीचे मुळ भागप्रमाणपत्र क्र.५६१, <mark>श्री. ब्रायन कॅजेतन</mark> **फर्नांडिस** यांच्या नावे असलेले दिनांक १८.१२.१९९४ ोजीचे वाटपपत्र व दिनांक १८.३.१९९९ रोजीचे ताब माणपत्र क्र.०००१७० हे हरवले/गहाळ झाले आहेत जर कोणा व्यक्तीस सदर फ्लॅटबाबत विक्री, अदलाबदल तारण, अधिभार, बक्षीस, न्यास, परिरक्षा, वारसाहक्क ताबा, भाडेपट्टा, मालकी हक, वहिवाट, परवाना nायदेशीर हक्क किंवा कोणतेही अधिकार, हक्क स्वरुपा नेणताही दावा किंवा मागणी असल्यास त्यांनी त्यांच आक्षेप/दावा पृष्ठ्यर्थ कागदोपत्री दस्तावेजांसह लेखी वरुपात सदर सुचना प्रकाशन तारखेपासून **१४ दिवसां**त कळवावे, अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा/आक्षेप त्याग/ स्थगित केले आहेत असे समजले जाईल. आज दिनांक १३ जानेवारी, २०२२

> सही/-श्रीमती वनिता योगेश ओरपे वकील उच्च न्यायालय दुकान क्र.१२७, १ला मजला, अजंता स्क्रेअर मॉल मार्केट लेन बोरिवली कोर्टाजवल

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that Mr. Digamba Govind Shivdavkar, the previous owner of Flat No. 208, "B" wing, Second floor, Bldg No. Darshan Geeta Nagar "A" Bldg. C.H.S Ltd., Geeta Nagar Phase I. Mira Bhavande Road, Mira Road (E), Dist: Thane 401107 (said flat), expired on 10/02/2014. My clients Mrs Manisha Sohan Sharma & Mr Sohar Prabhu Sharma intend to purchase the said flat from Mr. Rohit Mahesh Shivdavkar, the nominee of the deceased owner and the current holder of the flat. On behalf of the ntending purchasers, the undersigne advocate hereby invites claims or objection om other heir/s or claimant/s or objector/ for the transfer of the shares and interest of the deceased member in the said flat within period of 14 days from the publication of this notice, with copies of proofs to suppor the claim/objection. If no claims/objections are received within the period prescribe above my clients shall be at the liberty to deal with the shares and interest of the

Place: Mira Road, Thane A. Karimi Date: 13th January 2022 Advocate High Cour 004, B-31, Amrapali Shanti Nagar Sector 11, Near TMT Bus Stop

बोरिवली (प.), मुंबई-४०००९२. Mira Road East, Thane 401107

जिल्हा उप-निबंधक सहकारी संस्था. ठाणे

ग्रिला मजला, गांवदेवी मंडई इमारत, गांवदेवी मंदिराच्या बाजुला, ठाणे (प)-४००६०१ दूरध्वनी क्र. २५३३१४८६, ईमेल आयडी - ddrtna@gmail.com जा.क्र.जिउनि/ठाणे/बी-१०/अपसेट प्राईज/ दावा क्र.६१/२०२१

डेक्कन मर्चंट/१३७/२०२२ दि. ११/०१/२०२२ वसुली अधिकारी दि डेक्कन मर्चन्टस को-ऑप. बँक लि.. २१७, राजा राममोहन रॉय रोड, गिरगाव, मुंबई - ४०० ००४अर्जदार १.श्री. विश्वास समवेल मुर मुण्मयी पॅलेस, फ्लॅट नं. ५०४, चिकणघर, कल्याण (पश्चिम) - ४२१ ३०२. २.कु. मरथमा स्वामीदास रुम नं. ४०७, ओम शांतीवन सी.एच.एस.लि., रामबाग, गजानन हॉस्पिटलच्या बाजूला, कल्याण (पश्चिम), जिल्हा ठाणे - ४२१ ३०२. ...प्रतिवादी .श्री. कैलास बिसन वाघमारे, ५०१, ए विंग, विनायक अपार्टमेंट, टिटवाळा पोलिस स्टेशनच्या बाजूला, मांडा, टिटवाळा (पश्चिम) - ४२१ ६०५. ४.श्री. सुरेश बाबुराव कोळवणकर, १०२, महेश अपार्टमेंट, महागिरी, कोळीवाडा, टाणे (पश्चिम) - ४०० ६०१. .श्रीमती. मनोरंजनी विश्वास मुर,

विषय :- नियम १०७ प्रमाणे अपसेट किंमतीस मंजुरी देणेबाबत सुनावणीची नोटीस. उपरोक्त विषयाकडे आपले लक्ष वेधून अर्जदार व प्रतिवादी यांना कळविण्यात येते की, अर्जदार यांनी **श्री. विश्वास समवेल मुर यांच्या मालकीचा फ्लॅट नं.३०१, तिसरा** मजला, न्यु साई दर्शन सी.एच.एस.लि., सेक्टर-१७, प्लॉट नं.६, शिरगाव, **बदलापूर, क्षेत्रफळ ५५५ चौ.फुट** बांधीव या मालमत्तेच्या **विक्री** प्रकरणी अपसेट किंमत मिळणे बाबत प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे.

मण्मयी पॅलेस, फ्लॅट नं. ५०४,

चिकणघर, कल्याण (पश्चिम) - ४२१ ३०२.

सदर संस्थेच्या विषयांकीत विक्रीसंबंधी अपसेट किंमत निश्चितीसाठी सुनावणी दिनांक ०६/०१/२०२२ रोजी दुपारी ०३.०० वाजता या कार्यालयात आयोजीत केलेली होती. तथापी सदर सुनावणीस आपण प्रतिवादी म्हणून उपस्थित राहीला नाहीत.

सबब पुढील सुनावणी **दिनांक ३१/०१/२०२२ रोजी दुपारी ०३.०० वाजता** आयोजीत केलेली आहे. तरी या सुनावणीस आपण न चुकता उपस्थित राहुन आपले लेखी व तोंडी म्हणणे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. सदर सुनावणीस आपण उपस्थित न राहिल्यास अथवा लेखी/तोंडी म्हणणे सादर न केल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन एकतर्फी निकाल देण्यात येईल याची नींदू घ्यावी.

> (श्री. महेशकुमार गायकवाड) सहाय्यक-निबंधक सहकारी संस्था, ठाणे

रोझलॅब्स फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन : एल७०१००एमएच१९९५पीएलसी३१८३३३

नोंदणीकृत कार्यालय: ४१२, ४था मजला, १७जी वर्धमान चेंबर, कावसजी पटेल रोड, हॉर्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई-४००००१. द्रध्वनी:०२२-६१३३४४००, फॅक्स:९१-२२-२३०२४४२०,

वेबसाईटः www.roselabsfinancelimited.in ई-मेलः roselabsfinance@lodhagroup.com ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी संपलेल्या तिमाही व नऊमाहीकरिता अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचा अहवाल

तपशील	संपलेली तिमाही ३१.१२.२१	संपलेली नऊमाही ३१.१२.२१	संपलेली तिमाही ३१.१२.२०
	अलेखापरिक्षीत	अलेखापरिक्षीत	अलेखापरिक्षीत
कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	-	-	-
करपुर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबपूर्व)	(७.३१)	(३२.६१)	(३.२२)
करपुर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक आणि/र्किवा विशेष साधारण बाबनंतर)	(७.३१)	(३२.६१)	(३.२२)
करानंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक आणि/र्किवा विशेष साधारण बाबनंतर)	(७.३१)	(३२.६१)	(३.२२)
कालावधीकरिता एकूण सर्वंकष उत्पन्न (वर्षांकरिता एकत्रित नफा/(तोटा) (करानंतर) व इतर सर्वंकष उत्पन्न (करानंतर))	(७.३१)	(३२.६१)	(३.२२)
समभाग भांडवल (दर्शनी मूल्य रू.१०/- प्रति)	१०००.००	१०००.००	१०००.००
राखीव (पुर्नमुल्यांकित राखीव वगळून) मागील वर्षाच्या लेखापरिक्षित ताळेबंद पत्रकात दिल्यानुसार		(१५८८.३२)	
उत्पन्न प्रतिभाग (दर्शनी मुल्य रू.१०/-प्रत्येकी) (वार्षिकीकरण नाही) मूळ व सौमिकृत	(0.09)	(0.33)	(\$0.0)
टीप:			

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ३३ नुसार स्टॉक एक्सचेंजकडे सादर करण्यात आलेर्ल त्रैमासिक वित्तीय निष्कर्षाचा उतारा आहे. त्रैमासिक वित्तीय निष्कर्षाचे संपुर्ण नमुना बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि कंपनीच्य www.roselabsfinancelimited.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे

> <mark>संचालक मंडळाच्या वतीने व करित</mark> रोझलॅब्स फायनान्स लिमिटेडकरिता सही/ व्यवस्थापकीय संचालव

राघव रेड्डी डीआयएन: 0९१८५९७

मुंबई लक्षदीप 🔇

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the knowledge of general public at large on behalf of my client i.e. **SMT. SAVITA** MANEKLAL SETH that Origina Agreement for Sale date 08/12/1985 executed between purchaser i.e. DHARMISTA VASANTRI JOBALIA and ther Builders i.e. **M/S. NILKANTH** BUILDERS in respect of Flat No B/G-11 on Ground Floor, area dmeasuring 140 Sq. Ft. (Built-up i.e. 13.01 Sq. Mtrs., in the Building of the society known as GANESH KRUPA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., lying, being and situated at Village Diwanman Vasai (W), Tal. Vasai, Dist. Palgha is lost/ misplaced and not traceable So, it is hereby requested that if an person and or institution have found . or is in possession or have any clair or right over abovementioned original agreement shall return and or handover the original agreemen or raise objection at the address given below within 14 days from the date of publication of this notice and if fails to do so no claim shall be entertained in future and necessar ransaction will be done.

Sd/-Shri. Nagesh J. Dube Advocate 'Dube House', Opp. Bishop House

Stella, Barampur, Vasai (West) Dist: Palghar – 401202. e: Vasai Date: 13.01.2022 Place: Vasai

येथे सचना करण्यात येत आहे की. माझे अशिव श्री. योगेश सुरेश कथपालीया हयाच्या वतीने देत ... असन त्याच्या आई श्रीमती. वीनादेवी सुरेश **कथपालीया** हया मॅजेस्टीक शॉपींग सेंटर प्रिमायसेरे को. ऑप. सोसयटी लि. १४४, जी.एस.एस. रोड, गिरगांव, मुंबई - ४०० ००४ या सभासद आहेत. त्याचा मृत्य दि. २३/१२/२०२० रोजी झाला असून त्यांनी वारसत्व केले होते. परंतु त्यांची सोसाटीमध्ये नोंदणी केली नव्हती. श्री. योगेश सुरेश कथपालीया हे मृत व्यक्तीचा मुलगा असून बेसमेन्ट, शॉप नं. २२, मॅजेस्टीक शॉपींग सेंटर प्रिमायसेसे को. ऑप. सोसयटी लि. १४४, जी.एस. एस. रोड, गिरगांव, मुंबई - ४०० ००४ हयांनी स्वतः नावे दुकान दुकानाचे भाग स्वतः नावे स्थालांतरणासाठी अर्ज केला आहे. सोसायटी येथे सदर सदनिका स्थलातरीत करण्याबाबत दावा / हरकत यांचे वारसदार आणि इतर दावेदार यांनी सदर सुचने सहित दस्ताऐवज आणि इतर परावे सहित माझे कार्यालयात १५ दिवसांचे आत त्यांचे त्यांचा सदर अस्थापनेबाबत दावा हरकत हस्तांतरणबाबत **वकिल दिपक एस. जाधव** यांचे कार्यालय **शॉप नं. ३१ / २, जनता मार्केट, चेंब्**र रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१ येथे उपस्थित रहावे. जर **१५ दिवसाचे** आत दावा हरकत आली नाही तर सदर आस्थापना तसेच तिचे भाग कायदेशीररीत्या श्री. योगेश सुरेश कथपालीया यांच्या नावे करण्यात येईल. जर सदर बाबत काही दावा किंव हरकत आल्यास कायदयामध्ये नमूद प्रमाणे

> विकल दिपक एस. जाधव हाय कोर्ट, शॉप नं. ३१ / २, जनता मार्केट, रेल्वे स्टेशन जवळ, चेंबुर, मुंबई- ४०००७१

मो नं. ७०४५३८२०८८ दिनांक : ३१. ०१.२०२२

कार्यप्रणालीचे पालन केले जाईल.

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

DJ Mediaprint & Logistics Limited

Our Company was originally incorporated as "DJ Logistic Solutions Private Limited" on February 24, 2009 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U60232MH2009PTC190567 issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently name of the company has been changed to "DJ Mediaprint & Logistics Private Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation dated December 08, 2017. Subsequently our company was converted into Public Limited Company and the name of our Company was changed to "DJ Mediaprint & Logistics Limited" ordinated of incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated December 19, 2017 issued by the Register of Companies, Mumbai. Our company got listed on the SME Platform of BSE limited on April 13, 2020. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning

To Tube 1 vice 1 vice 1 vice 24, 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Mumbai – 400 002, Maharashtra, India. Corporate Office: UP Warehouse, Mafco Yard, Plot No. 4 to 9, 1st Floor, Sector-18, Vashi, Navi Mumbai – 400 703, Maharashtra, India. Contact Person: Ms. Khushboo Mahesh Lalji, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No.: 022 – 2788 9341 E-Mail ID: cs@djcorp.in; Website: www.djcorp.in; CIN: L60232MH2009PLC190567

OUR PROMOTERS: (I) MR. DINESH MUDDU KOTIAN AND (II) MR. SANTHOSH MUDDU KOTIAN

FURTHER PUBLIC OFFER OF 12,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMITED (THE FOR THER PUBLIC OFFER OF 12,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹115/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹1500.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹75.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 11,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹125/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹1,425.00 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 22.17% AND 21.06% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page 184 of the Prospectus. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay.

THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH THE FIXED PRICE PROCESS IN ACCORDANCE WITH REGULATION 281 READ WITH REGULATION 103(1) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED. THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENT) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. (For further details please see "The Issue" beginning on page no. 27 of the Prospectus.) A copy will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 184 of the Prospectus FIXED PRICE ISSUE AT 125/- PER EQUITY SHARE

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS 12.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE **PROGRAMME**

E ISSUE OPENS ON: JANUARY 18, 2022 **ISSUE CLOSES ON: JANUARY 20, 2022**

Simple, Safe, Smart way of Application!!!

Mandatory in public issue. No cheque will be accepted



For further details check section on ASBA below." "ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General Information Documents and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 184

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For nformation on the main objects of the Company, please see "Our History And Certain Other Corporate Matters" on page 102 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 228 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 1,000 lakhs divided into 1,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 421.39 lakhs divided into 42.13.920 Equity Shares of ₹10/- each Proposed Post issue capital : ₹ 541.39 Lakhs divided into 54,13,920 Equity Shares of ₹10 each. Fo details of the Capital Structure, see the section "Capital Structure" on the page 38 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Equity shares of face value of ₹10/- each were allotted to Dinesh Muddu Kotian- 5000 equity shares and Santhosh Muddu Kotian- 5000 equity shares

LIABILITY OF MEMBERS: Liability of members of Company is Limited.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and vestors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the activities of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of 'Risk factors' beginning on page no.17 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "Basis for Issue Price" beginning on page 52 of the

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the issued and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect.

LISTING: The Equity Shares of our company are already listed on the SME Platform of BSE Limited. The equity shares further offered through this Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our company has received "in-principal" approval letter dated January 06, 2022 from BSE for using its name in this Prospectus. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be BSE Limited ("BSE").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 168 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXHANGE (BSE LIMITED): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page no. 172 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
FINSHORE	

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Anandlok", Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road.

Kolkata-700020, West Bengal Telephone: 033 – 22895101 Email: ramakrishna@finshoregroup.com Website: www.finshoregroup.com

Place : Mumbai

Investor Grievance Email: info@finshoregroup.com Contact Person: Mr. S. Ramakrishna Ivengar SEBI Registration No: INM000012185 CIN No: U74900WB2011PLC169377

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E) Mumbai – 400011. Maharashtra

Email/ Investor Grievance E-mail support@purvashare.com Website: www.purvashare.com

Contact Person: Ms. Deepali Dhuri - Compliance Officer SEBI Registration No: INR000001112 CIN No: U67120MH1993PTC074079

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

DJ Mediaprint & Logistics Limited 24, 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Marine Lines, Mumbai - 400 002. India Tel No.: 022 – 2788 9341 E-Mail ID: cs@djcorp.in

Ms. Khushboo Mahesh Lalii

Website: www.djcorp.in

Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as nonreceipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

Availability of Prospectus: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in

Availability of Application form: Application forms can be obtained from the Registered Office of DJ Mediaprint & Logistics Limited and the Lead Manager to the Issue Finshore Management Services Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of BSE & SEBI.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of BSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia. com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "Issue Procedure" beginning on

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019 for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors.

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 17 of the Prospectus before making any investment decision.

For DJ Mediaprint & Logistics Limited On behalf of the Board of Directors

Date: 13/01/2022 Managing Director DJ Mediaprint & Logistics Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a further public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www. finshoregroup.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.djcorp.in. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933